



## राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार का एक स्वयं शासित संस्थान

(अनुसंधान और विकास अनुभाग)

**NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH BHUBANESWAR**

(An autonomous research institution under Department of Atomic Energy, Govt. of India)

Jatni, Khurda, Odisha - 752050

### Research & Development Section

#### Advertisement No.: NISER / R&D-315 / CS2403 / 31 / 2025-26

Indian nationals are invited for Interview (through Google Meet or in-person) on **January 27, 2026** at **02.00 pm** for the **two** temporary positions of Research Scholar under the project “Swayansaasita (Phase II)” in the School of Computer Sciences, NISER funded by Dassault Systemes Foundation, India.

#### **QUALIFICATION:**

Four years Bachelor's degree (with CGPA 8.00 or above) in Computer Sciences, Electronics, Electrical, Mechanical or equivalent.

**Desirable:** Expertise is sought in one of the following:

1. Machine Learning– (PyTorch)
2. Robotics – RoS, System Development and Integration

#### **MONTHLY EMOLUMENTS: - Rs. 37,000/- pm (Consolidated)**

**MAXIMUM AGE:** 28 years as on **25/01/2025**, age relaxation to entitled categories as per rules.

**The above position is purely temporary for a period of one year or completion of project whichever is earlier and strictly co-terminus with the project and not leading to any PhD degree in NISER. It would, therefore, not confer any right/ claim, implicit, or explicit for consideration/ absorption against any NISER post.**

**Interested candidates should appear in person or through Google Meet video conferencing only.** They need to fill up the [Google Form](#) with the duly filled-in application form given in page 2-3 of this advertisement, along with copies of all the Educational Certificates and names and contacts of two referees by **January 25, 2026 by 2pm**.

For any clarification, please contact Dr. Subhankar Mishra email [smishra@niser.ac.in](mailto:smishra@niser.ac.in).

*No TA/DA will be paid to the candidate, for appearing in the interview or joining the position.*

**Dean R&D**



# राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार का एक स्वयं शासित संस्थान

(अनुसंधान और विकास अनुभाग)

**NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH BHUBANESWAR**

(An autonomous research institution under Department of Atomic Energy, Govt. of India)

Jatni, Khurda, Odisha - 752050

## Research & Development Section

**विज्ञापन संख्या : NISER / R&D-315 / CS2403 / 31 / 2025-26**

### भर्ती के लिए आवेदन पत्र

Application for recruitment to the post of **Research Scholar**

Paste your recent  
colour passport  
photograph

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) | Full Name (In Block Letters):

\_\_\_\_\_

2. पिता / पति का नाम | Father's / Husband's Name: \_\_\_\_\_

3. जन्मतिथि | Date of Birth : \_\_\_\_\_

4. उम्र | Age as on (दिनांक 25.01.2026) : \_\_\_\_\_

5. पत्राचार के लिए डाक का पता : \_\_\_\_\_

Postal Address for Correspondence

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. स्थाई पता | Permanent Address : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. (a) कॉन्टैक्ट नं | Contact No. : \_\_\_\_\_

(b) ई-मेल | E-mail : \_\_\_\_\_

8. क्या अ.जा./ अ.ज.जा./अ.पि.व./ शा.वि. में आते हैं? : \_\_\_\_\_

Whether belongs to SC/ST/OBC/PWD

(जाति प्रमाण-पत्र का नकल संलग्न किया जावे | Copy of Caste Certificate to be enclosed)

9. क्या CSIR-UGC NET / GATE में योग्य हैं? : \_\_\_\_\_

Whether CSIR-UGC NET / GATE qualified?

(प्रमाण-पत्र का नकल संलग्न किया जावे | Copy of the Certificate to be enclosed)

10. शैक्षणिक योग्यताएँ (न्मात्रक से) | Educational Qualifications (Starting from Graduation):

परीक्षा का नाम   Name of the Examination	बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ संस्थान Board/ Univ./ Institute	उत्तीर्ण होने का वर्ष   Year of Passing	विषय   Subjects	अंको का प्रतिशत Percentage of Marks

11. अनुभव, यदि कोई हो | Experience, if any:

संगठन/ नियोक्ताका नाम Name of Organisation/ Employer	सेवा अवधि वर्ष तथा माह Period of Service in Year & Months	पदनाम Designation	वेतनमान तथा मूल/ सकल वेतन Scale of Pay & Basic/ Gross Emoluments	कार्य की प्रकृति Nature of duties

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्ट करता / करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। यदि मेरे द्वारा दी गयी कोई जानकारी किसी भी चरण पर गलत पायी जाती है, तो मेरा आवेदन रद्द किया जा सकता है।

I do solemnly affirm that the above information given by me is true to the best of my knowledge and belief. If any information given by me is found to be incorrect at any stage, my candidature may be cancelled.

दिनांक | Date :

स्थान | Place :

आवेदक का हस्ताक्षर | Signature of Applicant